

पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग विभाग

उपलब्धियां

- वर्ष 2017 और 2018 के दौरान, भारतीय रेलवे में कुल 407 ए 1 तथा ए - श्रेणी रेलवे स्टेशनों में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा आयोजित “ स्वच्छ रेल - स्वच्छ भारत ” सर्वेक्षण के दौरान भारतीय रेलवे के कुल 75 ए-1 श्रेणी के स्टेशनों में, विजयवाड़ा (बीजेडए) रेलवे स्टेशन को लगातार चौथे स्थान से सम्मानित किया गया है. उक्त सर्वेक्षण में विजयवाड़ा मंडल के कुल 13 ए - श्रेणी स्टेशनों में 9 स्टेशनों को उत्कृष्ट 75 स्टेशनों में स्थान प्राप्त हुआ. नेल्लूर (16), गूडूर (24), एलूरु (37), भीमवरम जंक्शन (44), सामलकोट (46), ओंगोल (50), चीराला (51), तुनी (52), तेनाली (69).
- वर्ष 2019 के दौरान, कुल 720 रेलवे स्टेशनों को गैर - उप शहरी (एन एस जी) ग्रूप अर्थात एनएसजी-1, एनएसजी-2, एनएसजी-3, एनएसजी-4 से 6 तक वर्गीकृत किया गया है. श्रेणीबद्ध करने के बाद भी, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा आयोजित “स्वच्छ रेल-स्वच्छ भारत” सर्वेक्षण के दौरान भारतीय रेलवे के कुल 720 स्टेशनों में विजयवाड़ा स्टेशन सातवें स्थान पर रहा, लेकिन अपने एनएसजी-2 स्टेशनों की श्रेणी में अपना चौथा स्थान बरकरार रखा.
- भारतीय रेलवे के स्टेशनों में से टॉप 10 में स्थान पाने वाले एकमात्र दक्षिणी क्षेत्र का स्टेशन विजयवाड़ा है.
- मंडल के कुछ अन्य स्टेशनों ने भी कुशल तरीके से निरंतर सुधार के साथ उल्लेखनीय स्थान प्राप्त की हैं.
- मार्च - 2019 माह में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा आयोजित हरित रेलवे स्टेशों की रेटिंग प्रणाली में स्वर्ण से सम्मानित किया गाय है. रेटिंग प्रणाली बहुत व्यापक है और इसमें ऊर्जा, जल, व्यवस्थित यात्री सुविधाएं, कचरे को निपटाने में अपनाई गई तरीकें, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि पर किये गये लेखापरीक्षा शामिल है. रेटिंग में आईएसओ 14001 प्रमाणन भी शामिल है.



- रश्रीय हरित अधलकरण (एजीटी) के निर्देशों के अनुसरण में रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुसार वलजयवाड़ा (बीजेडए) रेलवे स्टेशन ने आईएसओ-14001:2015 प्राप्त किया है. इससे यह प्रामाणित होता है कि पर्यावरणीय मानदंड अर्थात हवा, शोरगुल, जल, डीजी स्टैक मापन, स्टैक एमिशन आदि इस स्टेशन पर अच्छी तरह से निर्धारित मापनों के भीतर है.
- इसके अलावा, रश्रीय हरित अधलकरण (एन जी टी) द्वारा चुनिंदा 19 रेलवे स्टेशनों को भी पहचान कर, कार्यवाही जारी किया गया और दिनांक 31.03.2020 निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही सफलतापूर्वक आईएसओ-14001:2015 प्राप्त किया है. (गूडूर, नेल्लूर, ऑंगोल, चीराला, तेनाली, गुडिवाडा, भीमवरम टाउन, भीमवरम जंक्शन, काकिनाडा टाउन, काकिनाडा पोर्ट, तुनी, अन्नवरम और अनकापल्ली)